



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 815) पटना, बुधवार, 5 अक्टूबर 2016

सं० 03 / AMRUT-21-03/2015-2165 / न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

3 अक्टूबर 2016

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ(फेज-1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 239.1090 करोड़ रु० (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित हैं। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये State Annual Action Plan (SAAP) पर भारत सरकार के Apex Committee की सहमति प्राप्त है। SAAP के अनुसार पहले चरण में राज्य के 14 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें से किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ(फेज-1), एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के समक्ष रखा गया। SHPSC द्वारा दिनांक 16.09.16 को विमर्शोपरांत उक्त चार जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। वित्त विभाग के द्वारा 20 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है। उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 27.09.16 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-02 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्राक्कलित राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा और 20% का वहन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ ₹0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि 50%	राज्यांश की राशि 30%	नगर निकाय का अंशदान 20%
1	किशनगंज जलापूर्ति योजना(फेज-1)	28.482	14.241	8.5446	5.6964
2	बेगुसराय जलापूर्ति योजना	68.391	34.1955	20.5173	13.6782
3	बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना (फेज-1)	74.237	37.1185	22.2711	14.8474
4	दरभंगा जलापूर्ति योजना	67.999	33.9995	20.3997	13.5998
	कुल-	239.1090	119.5545	71.7327	47.8218

4. उक्त जलापूर्ति योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद (BRJP) होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। राज्यांश मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

5. AMRUT योजना के अधीन सभी योजनाओं का चयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया गया है तथा इसे संबंधित नगर निकाय के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिया गया है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया गया है।

6. इस योजना के अंतर्गत किशनगंज, बेगुसराय, बिहारशरीफ, एवं दरभंगा नगर निकाय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास कर राष्ट्रीय मानक के स्वच्छ पेय जलापूर्ति किया जाना है। इस योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस जलापूर्ति योजनांतर्गत संबंधित नगर निकायों के लगभग 1,22,210 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रावधान है कि योजना पूर्ण होने के उपरांत संवेदकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाएगा। उसके बाद नगर निकायों द्वारा संधारण किया जाएगा।

7. किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ(फेज-1), एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1.	किशनगंज(फेज-1) जलापूर्ति योजना	There are total 9 Zones (34 wards). Zone 4 has already been covered by PHED except HH connection. 46 Km distribution line exists. Present Proposal 5 Nos Tube wells, Rising Main-500 M No.of Storage Reservoir and total Capacity-0, Distribution Pipe Line- 60029 M, No. of HH connections-14523, SCADA-yes.
2.	बेगुसराय, जलापूर्ति योजना	There are total 9 zones (45 wards). 6 TWs exists and 28 Km distribution line laid. 33 wards are being covered in this project. Remaining 12 wards will be taken up in Phase-II . Present Proposal 14 NosTube Wells, Rising Main-2500M, No. of Storage Reservoirs & Total Capacity-5(total capacity_3630 KL), Districution pipe Line-93530 M, No. of HH connections -28900, SCADA-Yes.
3.	बिहारशरीफ(फेज-1)जलापूर्ति योजना	There are total 5 Zones (46 wards). PHED & BRJP have partially covered 17 wards in 4 zones under State Plan. Remaining work in 17 wards and 16 wards in 5 zones are being covered in this project. Remaining 13 wards will be taken up in Phase-II. Present Proposal 14 Nos Tube Wells, Rising Main- 1100, No. of Storage Reservoirs-7(total capacity - 6750 KL), Distribution Pipe Line-120957 M, No. of HH connections-23522, SCADA -Yes.
4.	दरभंगा, जलापूर्ति योजना	The town is divided in 5 zones (48 wards). The work is being carried out by PHED in zone-5 but internal streets & HH connections are not covered. Ward no. 8&9 in zone-4 are covered partially by BRJP from State Plan. 8 wards in 3 zones

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
		are being covered in this project. The left out streets by PHED in Zone-5 and HH connections in every HH in Zone-1,2,3&5 have been taken up in this project. Present Proposal 7 Nos. Tubewells, Rising Main-1140 M, No. of Storage Reservoir-3(total capacity 1362 KL), Distribution Pipe Line-75730 M, No. of HH connections-55265, SCADA- Yes.

8. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ (फेज-1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 239.1090 करोड़ रु० (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रु०) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 815-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>